



Genus Paper & Boards Ltd

(A Kailash Group Company)

CIN No : L21098UP2012PLC048300 PAN NO-AAECG5483A

Genus
energizing lives

October 27, 2020

BSE Limited (Corporate Relationship Department), 1 st Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 E-mail: corp.compliance@bseindia.com Scrip Code : 538961	National Stock Exchange of India Ltd. (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. E-mail: cc_nse@nse.co.in Symbol : GENUSPAPER
--	--

Dear Sirs,

Sub: Copy of Public Notice of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 advertised in Newspapers

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect to the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

We request to kindly take the same on record.

Thanking You !

Yours truly,

For Genus Paper & Boards Limited

Anuj Ahluwalia
Company Secretary



INDIAN OVERSEAS BANK
Risalalu Branch (VPO-Risalalu, Panipat, Haryana-132104, E-mail: iob3171@iob.in)
(APPENDIX IV) POSSESSION NOTICE (for immovable property) [(Rule 8(1))]
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Indian Overseas Bank, under the Secularization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(1)(2) calling upon the borrowers/mortgagors/guarantors
Borrower: Mrs. D M Industries Prop: Mr. Jai Parvesh Saini S/o Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat, Haryana - 132103
Guarantors: 1) Mr. Jai Parvesh Saini s/o Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat, Haryana - 132103 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,92,288.60 (Rupees Twenty Lacs Ninety Two Thousand Two Hundred Eighty Eight and Sixty Paise only) as on 30.06.2020 plus further interest thereon at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of the said notice.
2) The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him, under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 23rd October 2020.
3) The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

MOTILAL OSWAL Mutual Fund
Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Registered & Corporate Office : 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email : mfservice@motilaloswal.com
• CIN No. : U67120MH2008PL188186
• Website: www.motilaloswalmf.com and www.mostshares.com

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Scheme(s) of Motilal Oswal Mutual Fund
Change in the address of Investors Service Center for the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF)
Investors are hereby requested to take note of the following change in the address of Investors Service Center for the Schemes of MOMF with effect from October 24, 2020.
Location Existing Address New Address
Kochi 41/418 E, 4th Floor, Chicago Plaza, Rajaji Road, Kochi, Kerala - 682 035. 1st Floor, Areekkal Mansion, Panampilly Nagar, Main Road, Opposite to Malayala Manorama, Kochi, Kerala - 682 036.
This notice cum addendum forms an integral part of SID and KIM of the Scheme(s) of MOMF.
All other contents remain unchanged.
For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)
Sd/- Navin Agarwal
Managing Director & Chief Executive Officer
Place : Mumbai Date : October 26, 2020
MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ZIM LABORATORIES LIMITED
Registered Office: Sadoday Gyán (Ground Floor) Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur - 440 013
CIN : L99999MH1984PLC032172, Website : www.zimlab.in
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2020
(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)
Particulars Quarter Ended Half Year Ended Year Ended
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited
Total Income from Operations 8,803.3 7,047.59 6,779.07 15,850.89 13,519.81 27,773.92
Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax 637.77 439.05 (161.62) 1,076.82 (405.39) 6.86
Net Profit/(Loss) for the period after exceptional item and tax 119.69 439.05 (161.62) 558.74 (405.39) 6.86
Net Profit / (Loss) for the period after tax 119.48 328.08 (60.88) 447.56 (52.23) 329.66
Total Comprehensive Income for the period 82.49 318.29 (59.55) 400.78 (67.73) 363.78
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per share) 1,624.19 1,624.19 1,618.07 1,624.19 1,618.07 1,618.07
Other Equity (excluding Revaluation Reserve) 13,764.03
Earnings per share (not annualised)
a) Basic 0.73 2.02 (0.37) 2.75 (0.32) 2.03
b) Diluted 0.73 2.02 (0.37) 2.75 (0.32) 2.03
Note : 1. Key Standalone financial information of the company is given below :
Particulars Quarter Ended Half Year Ended Year Ended
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited
Income from Operations 8,644.90 6,977.20 6,733.69 15,622.10 13,419.28 27,431.97
Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax 512.55 387.60 (149.35) 900.15 (399.10) (148.74)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (5.74) 276.63 (48.61) 270.89 (45.95) 17.06
Total Comprehensive Income (12.48) 269.89 (60.06) 257.41 (68.85) 147.10
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the company's website (www.zimlab.in).
3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 26th October 2020. There are no qualifications in the limited review report issued for the quarter and half year ended 30th September 2020.
Place : Nagpur, (Anwar S. Daud)
Date : 26 October, 2020 Managing Director

Genus energizing lives
GENUS PAPER & BOARDS LIMITED
CIN: L21098UP2012PLC048300
Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh
Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
Ph.:0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 | E-mail: cs@genuspaper.com | Website: www.genuspaper.com,
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020
(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)
S. NO. PARTICULARS Quarter ended Quarter ended Half year ended Quarter ended Half year ended
September 30, 2020 September 30, 2019 September 30, 2020 September 30, 2020 September 30, 2020
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
1 Total income from operations 8011.14 7669.19 11146.44 8011.14 11146.44
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 377.66 354.49 -183.62 377.66 -183.62
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 377.66 354.49 -183.62 377.66 -183.62
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 386.28 567.88 -162.35 386.28 -162.35
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) 386.28 567.88 -162.35 386.28 -162.35
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each) 2571.26 2571.26 2571.26 2571.26 2571.26
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - - -
8 Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)
Basic 0.15 0.22 -0.06 0.15 -0.06
Diluted: 0.15 0.22 -0.06 0.15 -0.06
Notes:
1. The above unaudited standalone & consolidated financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on October 26th, 2020. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.
2. The Above unaudited standalone & consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
3. The Company has invested in wholly Owned Subsidiary company in the name of "Kaish Paper and Coke Limited" incorporated in India on July 23rd, 2020.
For and on behalf of the Board of Directors
(Kailash Chandra Agarwal)
Managing Director & CEO
DIN: 00895365
Place: Moradabad
Date : October 26, 2020

GULSHAN POLYOLS LIMITED
Regd. Off : 9' K.M. Jansath Road, Muzaffarnagar - 251 001 (UP)
Corporate Off. : G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092
Tel : 011-49999200, Fax : 011-49999202
CIN : L24231UP2000PLC034918
Website : www.gulshanindia.com, E-mail : cs@gulshanindia.com
Notice of Board Meeting
Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 2, 2020 at G - 81 Preet Vihar, Delhi - 110092, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2020 including other matters of the Company. The information contained in this Notice is also available on Company's website www.gulshanindia.com and on the Stock Exchanges' website: www.nseindia.com and www.bseindia.com.
For Gulshan Polyoils Limited
Sd/- (Vijay Garg)
Company Secretary
Delhi
October 26, 2020

Monnet Industries Limited
Registered Office: Plot No. 216, Sector-C, Uria Industrial Complex, Raipur-493221 (Chhattisgarh)
Corp. Office: Monnet House, 11, Masjid Moh, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 (INDIA)
Phone : +91 11 29218542; Fax : +91 11 29218541
Email: isc_mind@monnetgroup.com; Website : www.monnetgroup.com; CIN:L51103CT1982PLC009717
NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING
Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 17th November, 2020 at 12:30 P.M. through video conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM), to transact the business as stated in the Notice of AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.
In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on 16th October, 2020. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2019-20 is available on the website of the Company at www.monnetgroup.com as well as on the website of BSE at www.bseindia.com. The company has sent notice of AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 26th October, 2020. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence from Saturday, 14th November, 2020, at 09:00 a.m. and end on Monday, 16th November, 2020 at 5:00 p.m.
In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report 2019-20 and login details for e-voting.
1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/RTA email id.
2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-8 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to Company/RTA email id. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 10th November, 2020 to Tuesday, 17th November, 2020 (both days inclusive).
The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht Partner of M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 13700), falling him M/s. Priyanka, Partner at M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 16187) having address at B-88, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the voting at AGM in a fair and transparent manner.
Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questioning (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsl.com or contact Mr. Sarita Mote, NSDL through e-mail at evoting@nsl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990 or Mr. Amarjit, Senior Manager, MCS Share Transfer Agent Ltd., through email at admin@mcsregistrars.com or on Telephone No.: 011-41406149.
To support green initiative, Members who have not registered their email addresses so far or who want to update their email address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or MCS Share Transfer Agent Ltd. / Company (for physical holding) for receiving all communications electronically.
By order of the Board of Directors
MONNET INDUSTRIES LIMITED
Sd/- Priya
Company Secretary
Dated : 26.10.2020
Place : New Delhi

FORM No. CAA 2
(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH
COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HRY OF 2020
IN THE MATTER OF
THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:
GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1
AND
SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2
AND
SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U7109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/APPLICANT COMPANY NO. 3
AND
RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4
AND
FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5
AND
CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6
WITH
GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7
NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF VALUE OF RS. 50,00,000- AND ABOVE OF THE CENTURY METAL RECYCLING LIMITED, TRANSFEROR COMPANY NO. 6
Notice is hereby given that by an order dated 9th October 2020 ("Order"), the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT") has directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of value of Rs. 50,00,000/- and above of the Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor Company No. 1") and Suvidhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") & their respective Shareholders ("Scheme"). In pursuance of the said order notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 6 will be held through Video Conferencing ("VC"), as under:
S.N. Meetings of WebLink -CISCO WEBEX System Time Day and Date
1. Secured Creditors of Transferor Company No. 6 https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=m337084aada967cfd7999527b34c8c8c 01:00 P.M [IST] Saturday, 28th November 2020
2. Unsecured Creditors of value of Rs. 50,00,000- and above of the Transferor Company No. 6 https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=m95680a7da613640f82237011a7f0b6dd 02:00 P.M [IST] Saturday, 28th November 2020
Copies of the Scheme, the Explanatory Statement under Section 230-232 of the Companies Act, 2013 and Forms of Proxy can be obtained free of charge between 10:00 AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 6 at Unit No 802-803, 8th Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana-121003. Pursuant to said Order, creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting.
The Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr. Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.
A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.
For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 6 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretarial@century.in, for receiving the above/said link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail.
Date: 26 October 2020 Justice V.K. Jhanji (Retd.)
Place: Chandigarh Chairperson appointed for the aforesaid Meetings

GIC HOUSING FINANCE LTD.
YOUR ROAD TO A DREAM HOME
CIN No. L65922MH1989PLC054853
Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Janshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020. | Tel No.: 022-43041900.
Email: corporate@gicfh.com, investors@gicfh.com | Website: www.gicfhindia.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of our Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (with Limited Review) for the Second Quarter/Half Year ended 30th September, 2020.
Board Meeting Notice is available on the website of the Company www.gicfhindia.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.
For GIC Housing Finance Ltd.
Sd/- Nutan Singh
Group Executive & Company Secretary
Place : Mumbai
Date : 27.10.2020

MPDL Limited
(Formerly, known as Monnet Project Developers Limited)
Registered Office: Plot No. 216, Sector-C, Uria Industrial Complex, Raipur-493221 (Chhattisgarh)
Corp. Office: Unit No. 12, GF, Magnum Tower-1, Sector- 58, Gurugram, Haryana - 122011 (India)
Phone : +91 11 29218542; Fax : +91 11 29218541; Email: isc_mpd@monnetgroup.com; Website: www.monnetgroup.com; CIN: L7102CT2002PLC015040
NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING
Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 17th November, 2020 at 02:30 P.M. through video conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM), to transact the business as stated in the Notice of AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.
In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on 16th October, 2020. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2019-20 is available on the website of the Company at www.monnetgroup.com as well as on the website of BSE at www.bseindia.com. The company has sent notice of AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 26th October, 2020. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence from Saturday, 14th November, 2020, at 09:00 a.m. and end on Monday, 16th November, 2020 at 5:00 p.m.
In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report 2019-20 and login details for e-voting.
1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/RTA email id.
2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-8 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to Company/RTA email id. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 10th November, 2020 to Tuesday, 17th November, 2020 (both days inclusive).
The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht Partner of M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 13700), falling him M/s. Priyanka, Partner at M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 16187) having address at B-88, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the voting at AGM in a fair and transparent manner.
Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questioning (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsl.com or contact Mr. Pratibh Bhatt, NSDL through e-mail at pratibh@nsl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990 or Mr. Amarjit, Senior Manager, MCS Share Transfer Agent Ltd., through email at admin@mcsregistrars.com or on Telephone No.: 011-41406149.
To support green initiative, Members who have not registered their email addresses so far or who want to update their email address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or MCS Share Transfer Agent Ltd. / Company (for physical holding) for receiving all communications electronically.
By order of the Board of Directors
MPDL Limited
(Formerly, Monnet Project Developers Limited)
Sd/- Anurag Singh Rathore
Company Secretary
Dated : 26.10.2020
Place : New Delhi

PUBLIC NOTICE
We hereby inform that General Power of Attorney dated 20-09-1999 executed by Mr. Harjit Singh Bhatia in Favour of Mrs. Usha Nischal in respect of ADA MIG Flat No. 55C, Pocket A-14, Kalkaji Ext., New Delhi-110019 has been lost. If anyone gets the same, please contact Mrs. Birma Devi / Mr. Gautam Gupta (9999935471)

ANUH PHARMA LIMITED
CIN: L24230MH1960PLC011586
Regd. Office: 3-A Shivsagar Estate, North Wing Dr. Amie Besant Road, Worli, Mumbai -400 018
Phone: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600
Email: anuh@sk1902.com; Website: www.anuhpharma.com
NOTICE
NOTICE is hereby given that Pursuant to the Regulation 29 read with the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Friday, November 06, 2020, inter alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.
The said notice is also available on the website of the Company at www.anuhpharma.com as well as on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.
For Anuh Pharma Limited
Sd/- Bipin N. Shah
Managing Director
Date : October 26, 2020
Place: Mumbai (DIN: 00083244)

CHENNAI MEENAKSHI MULTISPECIALITY HOSPITAL LTD
CIN: L85110TN1980PLC019545
Regd. Office: New No. 70 (Old No.149), Luz Church Road, Mysapore, Chennai - 600 004.
Ph: 044-29383938; Fax: 044-29393282.
Email: cmhshospitals@anul.com; Website: www.cmh.in
NOTICE
NOTICE is hereby given Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 4.00 p.m on Wednesday, November 11, 2020 at the Registered Office of the Company at New No. 70, Old No.149, Luz Church Road, Mysapore, Chennai-600004 to consider, inter alia the Unaudited Financial Results for the Quarter/Half year ended September, 2020. This information is also available on the Company's Website at www.cmh.in and Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.
for Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd.
Sd/- R. Deepadayaalu
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.F3850; Mobile No.928312100
Place: Chennai
Date: October 26, 2020

Form No. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.
AND
In the matter of AVANTIKA STONES PRIVATE LIMITED (CIN: U14294DL2017PTC31295) having its Registered Office at FARM NO. 4 GATE NO. 3, DERA MORE, NEAR IOC PETROL P. KHASRA NO.40, VILLAGE BHATI, MAIN CHATTERPUR ROAD, NEW DELHI-110074
..... Applicant Company / Petitioner
NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 26th October, 2020 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Madhya Pradesh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit, stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address mentioned below:
FARM NO. 4 GATE NO. 3, DERA MORE, NEAR IOC PETROL P. KHASRA NO.40, VILLAGE BHATI, MAIN CHATTERPUR ROAD, NEW DELHI-110074
For & on behalf of Applicant
AVANTIKA STONES PRIVATE LIMITED
Sd/- VISHNU KUMAR SINGHAL
(Director)
Date : 27.10.2020
Place : New Delhi DIN: 03541691

FORM No. CAA 2
(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH
COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HRY OF 2020
IN THE MATTER OF
THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:
GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1
AND
SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2
AND
SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U7109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/APPLICANT COMPANY NO. 3
AND
RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4
AND
FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5
AND
CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6
WITH
GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7
NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF VALUE OF RS. 50,00,000- AND ABOVE OF THE CENTURY METAL RECYCLING LIMITED, TRANSFEROR COMPANY NO. 6
Notice is hereby given that by an order dated 9th October 2020 ("Order"), the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT") has directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of value of Rs. 50,00,000/- and above of the Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor Company No. 1") and Suvidhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") & their respective Shareholders ("Scheme"). In pursuance of the said order notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 3 will be held through Video Conferencing ("VC"), as under:
S.N. Meetings of WebLink -CISCO WEBEX System Time Day and Date
1. Secured Creditors of Transferor Company No. 3 https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=m3a50f0ea43af376796958a8e43c974a7e7 10:00 A.M. [IST] Saturday, 28th November 2020
2. Unsecured Creditors of Transferor Company No. 3 https://sunresolution.webex.com/sunresolution/j.php?MTID=m76ea4baa8c6319e33e7a6eb2ce4c9622 11:00 A.M. [IST] Saturday, 28th November 2020
Copies of the Scheme, the Explanatory Statement under Section 230-232 of the Companies Act, 2013 and Forms of Proxy can be obtained free of charge between 10:00 AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 3 at Unit No 802-803, 8th Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana-121003. Pursuant to said Order, creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting.
The Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr. Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.
A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.
For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 3 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretarial@century.in, for receiving the above/said link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail.
Date: 26 October 2020 Justice V.K. Jhanji (Retd.)
Place: Chandigarh Chairperson appointed for the aforesaid Meetings

East India Udyog Limited
CIN:U31102DL1966PLC329545
Regd. Office: B-41, Maharani Bagh, New Delhi-110085
E-mail: cs@eui.in
Before the Central Government Through the office of the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi
In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
And in the matter of East India Udyog Limited having its Registered Office at B-41, Maharani Bagh, New Delhi-110085
..... Applicant Company
PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the General Public that East India Udyog Limited (the Company) proposes to make an Application to the Central Government through the office of the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi (13(4) of the Companies

निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर ।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ जारी अदालती अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। यह कार्यवाही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते सरकारी आवास में रहने का किराया अदा करने के अपने पिछले साल के आदेश का पालन नहीं करने पर शुरू की थी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाले पीठ ने निशंक की अर्जी पर सुनवाई के बाद अवमानना की कार्यवाही रोक दी।

गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल तीन मई को आदेश दिया था कि पद छोड़ने के बाद भी सरकारी बंगलों में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर के हिसाब से किराया वसूल किया जाए। हाईकोर्ट ने 2001 के बाद जारी पूर्व मुख्यमंत्रियों को

माल्या की कंपनी की अपील पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर ।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर यूबीएचएल की अपील पर गौर करने से इनकार कर दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यूबी समूह की 102 साल पुरानी मूल कंपनी यूबीएचएल को समेटने के फैसले पर मोहर लगा दी। भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि अब तक इस समूह से केवल 3600 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है।

सुरा सम्राट और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की कंपनी युनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने माल्या की दूसरी कंपनी किंगफिशर एअर लाइंस लिमिटेड की तरफ बकाया रकम की वसूली के लिए यूबीएचएल को बंद करने के आदेश को बहाल रखा था।

आंध्र प्रदेश : बिना आबकारी शुल्क के अन्य राज्यों से शराब परिवहन पर रोक

अमरावती, 26 अक्टूबर (भाषा)।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत सोमवार को एक आदेश जारी करके बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी।

यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को

परमिट या लाइसेंस के बिना तीन बोटल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। अब, यहां तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई राज्य के बाहर से शराब नहीं ला सकता है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी। विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भागवत ने आदेश में कहा कि इससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

हैदराबाद : डकैती के आरोप में चार नेपाली गिरफ्तार

हैदराबाद, 26 अक्टूबर (भाषा)।

तेलंगाना में एक व्यवसायी के घर से दस लाख रुपए एवं सोने के आभूषणों की डकैती में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में नेपाल के चार नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

रचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश एम भागवत ने बताया कि चारों आरोपियों ने इस अपराध को 19 अक्टूबर को अंजाम दिया था और इन लोगों को 22-25 अक्टूबर के बीच लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। भागवत ने बताया कि उनमें से दो लोग व्यवसायी के घर पर नौकर के रूप में काम कर चुके हैं।

पुलिस ने बताया कि व्यवसायी एवं उनके परिवार के अन्य लोग घर से बाहर गए थे तो दोनों ने उनकी 70 साल की मां को नींद की गोली चाय में मिला कर दे दी। इससे वह अचेत हो गई, तब दोनों आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिल कर दस लाख रुपए नकद एवं 180 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए और वहां से भाग गए।

MISPLACEMENT

S L B P FINANCE PRIVATE LIMITED
U74899DL1990PTC041694
Email: slbfinance01@gmail.com
We Mis S L B P FINANCE PRIVATE LIMITED
(CIN: U74899DL1990PTC041694), Delhi, would like to inform the general public that our NBFC Certificate bearing No. B-14.02611 (original) issued by Reserve Bank of India dated 4/05/2002, had been misplaced.
We have lodged FIR wide LR No: 672829/2020 at Madhu Vihar and Mandawali Police Station, New Delhi, dated 20/10/2020 in respect of misplacement of the said document.
If any person /s who finds it, is requested to return the same to us at below mention address.
D-407, Unico Apartment, Patparganj, Delhi East, Delhi-110029 IN
Sd/-
Date: 27/10/2020 **RIPLLE NAGPAL (Director)**
Place: Sarthi **Contact: 8800326448**

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है। कि कि श्री हरीजोत सिंह माटिया द्वारा श्रीमती उषा निश्चल के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्ति 20-09-1999 को डीडीए एमआईजी पते नं. 55टी, पॉकेट ए-14, कालकाजी एक्स, एमआईजी नई दिल्ली-110019 के संबंध में निष्पादित किया गया था जोकि ग़ुम हो गया है। अगर किसी को भी प्राप्त होता है तो श्रीमती बिमिन्ना देवी/श्री गौतम गुप्ता (9999935471) से संपर्क करें।

एसएमसी क्रैडिट्स लिमिटेड

संस्थापन : L65910DL1992PLC049566
24, अशोक वैद्यर्क, 4-बी, गजिन्दा पार्क, पुरा रोड, नई दिल्ली-110060
दूरभाष : +91-11-45012880
ई-मेल : www.smcorp011@gmail.com
वेबसाइट : www.smcredits.com

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधिकांश) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 अक्टूबर, 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही के अलेखापरिहित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुद्धसमिहार, 5 नवम्बर, 2020 को सां 4.00 बजे, 24 अशोक वैद्यर्क, 5-बी गजिन्दा पार्क, पुरा रोड, नई दिल्ली-110060 पर आयोजित की जायेगी।

यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एसएमसी क्रैडिट्स लिमिटेड ह./- (सुमा आराधन पाण्डे) कम्पनी सचिव तिथि : 26.10.2020

इंस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड

संस्थापन : U31102DL1966PLC329545
पंजीकृत कार्यालय : बी-41, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
ई-मेल : cs@ciuil.in
कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मार्गले मन्नालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) एवं कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30(5) (क) के मामले में तथा

इंस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-41, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 पर है।

.....आवेदक कम्पनी सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा जनसाधन को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के साथ पंढित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 एवं अन्य प्रयोक्त प्रवधानों के अधीन कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मार्गले मन्नालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "रा.रा.शे." से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संलग्न कार्य के उपबन्ध II में संशोधन की पुष्टि/अनुमोदन की मांग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक अपनी प्रुप्य फाइल कर एमसीए-21 पंढित (www.mca.gov.in) में आपति दर्ज कर सकता है।

यह कार्य पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आवेदन/अमानतियों द्वारा यदि के पुनर्भूतान से अस्पष्ट होने के कारण, एतद्वारा कर्तव्य/अमानतियों तथा जनसाधन को सूचना दी जाती है कि अधोदस्ताक्षरी ने कर्तव्य निर्वहन के नियम 8 एवं 9 के साथ पंढित कर्तव्य अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदात शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित पत्र पर 22 अक्टूबर, 2020 को कक्षा का विचार है।

उपरोक्त कर्तव्य को विधेय रूप से तथा जनसाधन को एतद्वारा समिति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और समिति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 21.10.2020 तक रू. 11,12,07,140,51/- (रुपये पचाह करोड़ बाह लाख सात हजार एक सौ चालीस एवं इक्यावन पैसे मात्र) तक आम तत्पानी हेतु केनरा बैंक (पूर्व का ई-सिडीके बैंक) के प्रदात का विषय होना।

एनटीपीसी लिमिटेड

(प्रायः सरकारी का उद्यम)

सीआईएन: L40101DL1975GOI007966
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इस्टर्नयूनाइटेड एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन नं. 011-24360100, फैक्स नं. 011-24361018, ई-मेल: csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in

बोर्ड मितिग की सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधिकांश) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पंढित विनियम 47 के अनुसारण में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक नई दिल्ली में सोमवार, 2 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ, 30 अक्टूबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कम्पनी के पुनर्विकसित वित्तीय परिणामों की बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के बाद, इन परिणामों पर ई-मेल/विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखित किया जाएगा।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देयी जा सकती है।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड हस्ता./- (कम्पनी सरकार) नवीनी सचिव तिथि: 27.10.2020

कैनारा बैंक

आहित वसूली प्रबन्धन शाखा
4, नेहरू हिल्स, बहादुर शाह जफर मार्ग
निकट आईटीओ चोक, नई दिल्ली-110002

कक्षा सूचना

(पारिष्द IV अधिनियम के तहत नियम 8 (1))

जनकि, अधोदस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की विधाय शक्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विभाग तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पंढित धारा 13(12) के तहत प्रदात शक्तियों के उपयोग में केनरा बैंक का अधिकृत प्राधिकार होने के नाते कर्जदार मैसर्स चंदा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती रानी शर्मा, श्री गोविन्द राम शर्मा तथा श्री विवेक चन्द कटारिया से कर्तव्य सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में लिखित 01.01.2019 तक राशि रु. 8,60,41,492.- तथा उस पर व्याज एवं अन्य लागतों का पुनर्भूतान करने के लिए कर्तव्य होत 29.01.2019 को एक मांग सूचना निगत की।

कर्जदार/अमानतियों द्वारा यदि के पुनर्भूतान में अस्पष्ट होने के कारण, एतद्वारा कर्तव्य/अमानतियों तथा जनसाधन को सूचना दी जाती है कि अधोदस्ताक्षरी ने कर्तव्य निर्वहन के नियम 8 एवं 9 के साथ पंढित कर्तव्य अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदात शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित पत्र पर 22 अक्टूबर, 2020 को कक्षा का विचार है।

उपरोक्त कर्तव्य को विधेय रूप से तथा जनसाधन को एतद्वारा समिति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और समिति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 21.10.2020 तक रू. 11,12,07,140,51/- (रुपये पचाह करोड़ बाह लाख सात हजार एक सौ चालीस एवं इक्यावन पैसे मात्र) तक आम तत्पानी हेतु केनरा बैंक (पूर्व का ई-सिडीके बैंक) के प्रदात का विषय होना।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निलिखित से निमित्त सम्पत्ति का वर्णन नं. 1237, निकट ईएसआईटी अस्पताल, सेक्टर-9ए, हृदा मण्डल में स्थित, गोविन्द राम शर्मा तथा श्रीमती रानी शर्मा के स्वामित्व में, इसका कार्यालय 4629/198, दौलतबाद इंडस्ट्रियल एरिया, मुद्रगाम में।
दिनांक: 22 अक्टूबर, 2020
स्थान: नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी केनरा बैंक (ई-सिडीके)

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN:17440HR1993PLC031900
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं 6ए-67, एफआईडी, सेक्टर 57, फरीदाबाद, हरियाणा-121004
दूरभाष: 011-69999159,
ईमेल आईडी: radhanyam.nair@gmail.com, वेबसाइट: www.spsintl.co.in

सूचना

सेबी प्रावण i.e. SEBI/HO/MRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 दिनांक 06.11.2018 से अनुरांत एतद्वारा सूचना प्रदात की जाती है कि टॉकररी के द्वारा निम्न शेयर प्रमाण पत्र कम्पनी में दर्ज किये गये हैं। उपरोक्त शेयरों के हस्तान्तरण में किसी व्यक्ति के दावे/किसी भी अपिभक्ति के किसी भी आपति कम्पनी को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, ऐसा ना होने पर कम्पनी शेयरों के हस्तान्तरण पर निरंटेर के आधार पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं कम्पनी किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के विधेय नुकसान अथवा अन्यथा के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

क्र० सं०	फोलियो न०	प्रमाण पत्र न०	किरिस्टियन न०	शेयरों की संख्या	विक्रेता का नाम	खरीदार का नाम
1	13537	27522	2340601-2340700	100	ओ पी इंड	मनोज कुमार गोयल
		26846-26847	2273001-2273200	200		
		24808-24809	2069201-2069400	200		
		28145-28146	2402901-2403100	200		
2	14965	25918-25922	2180201-2180700	500	रमेश चंद्	अर्चना गोयल
		35980-35981	3186401-3186600	200		
		33840	2972401-2972500	100		
		26288	2271201-2271300	100		
		35367	3125101-3125200	100		
3	15352	26618	2250201-2250300	100	मनोज कुमार गोयल	अर्चना गोयल
		22715	1859901-1860000	100		
		22746	1863001-1863100	100		
		24185	2006901-2007000	100		
		23400	1928401-1928500	100		
		22801-22803	1868501-1868800	300		
		24192	2007601-2007700	100		
		33578	2946201-2946300	100		
		21840	1772401-1772500	100		
		29561	2544501-2544600	100		
4	15353	32531	2841501-2841600	100	मनोज कुमार गोयल	अर्चना गोयल
		22733	1861701-1861800	100		
		22736	1862001-1862100	100		
		26622	2250601-2250700	100		
		29560	2544401-2544500	100		
		21231	1715101-1715600	100		
		21629	1751301-1751400	100		

कृते एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड हस्ता./- सुरेन्द्र कुमार जैन (प्रबन्ध निदेशक) तिथि: 26 अक्टूबर, 2020 स्थान: फरीदाबाद

भारतीय क्रिकेट संघ और विश्वविद्यालय अर्थ निधि निधि का उद्यम के लिए अधोदस्ताक्षरी प्रस्तावित प्रस्तावित अधिकांश विनियम, 2016 के विनियम 29(1) के अंतर्गत		संबंधित विवरण	
1	निगमित कम्पनी का नाम	जेसी वर्ल्ड होस्पिटलटो प्राइवेट लिमिटेड	18/09/2012
2	निगमित कम्पनी के समाप्तन की तिथि	संज्ञिकारि अधिकार प्राप्त, दिल्ली (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी)	US6104DL2012PTE
3	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
4	निगमित एतद्वारा सूचना प्रकाशन की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
5	निगमित कम्पनी को पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
6	निगमित कम्पनी के संबंध में कर्जशोधन सूचनाएं होने की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
7	अभिलेख की अभिव्यक्ति के आनयन की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
8	कोई की धारा 25(2)(ए)के तहत प्रस्ताव आवेदकों के लिए पेश किया गया है।	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
9	धारा 29(2) के तहत लागू आवेदकों के मानक निम्न पर उपलब्ध हैं:	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
10	अभिलेख की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
11	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की संख्या	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
12	वित्तीय जमा करने की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
13	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की संख्या	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
14	संभावित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव आवेदकों के लिए निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
15	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मॉडल, मेमोरैंडम व अन्य सूचना के लिए अनुबंध जारी करने की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
16	प्रस्ताव योजना जमा करने की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
17	प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजनाओं को जमा करने का तरीका	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
18	अनुमोदन से संबंधित प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव आवेदकों के लिए निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
19	प्रस्ताव आवेदकों का नाम व निदेशक नंबर	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
20	बोर्ड के साथ निदेशक अथवा प्रस्ताव आवेदकों का नाम पता व ई-मेल	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
21	प्रस्ताव आवेदकों के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
22	अतिरिक्त विवरण निम्न पर उपलब्ध है	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के
23	फॉर्म जो प्रकाशन की तिथि	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के	प्राधिकृत निदेशक द्वारा निगमित कम्पनी के